

CBSE Class 12 Chemistry Question Paper 2019

SET-1

Series BVM/2

रोल नं.

--	--	--	--	--	--

Roll No.

कोड नं.
Code No. **56/2/1**

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ **15** हैं।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में **27** प्रश्न हैं।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
- Please check that this question paper contains **15** printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains **27** questions.
- Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक) CHEMISTRY (Theory)

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks : 70



सामान्य निर्देशः

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) खण्ड अ : प्रश्न संख्या 1 से 5 तक अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है।
- (iii) खण्ड ब : प्रश्न संख्या 6 से 12 तक लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं।
- (iv) खण्ड स : प्रश्न संख्या 13 से 24 तक भी लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक हैं।
- (v) खण्ड द : प्रश्न संख्या 25 से 27 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक हैं।
- (vi) प्रश्न पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। फिर भी एक अंक वाले दो प्रश्नों में, दो अंकों वाले दो प्रश्नों में, तीन अंकों वाले चार प्रश्नों में तथा पाँच अंकों वाले तीनों प्रश्नों में विकल्प दिया गया है। ऐसे सभी प्रश्नों में से आपको एक ही विकल्प का उत्तर देना है।
- (vii) यदि आवश्यकता हो, तो आप लघुगणकीय सारणियाँ माँग सकते हैं। कैल्कुलेटरों के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

General Instructions :

- (i) All questions are compulsory.
- (ii) Section A : Questions number 1 to 5 are very short answer questions and carry 1 mark each.
- (iii) Section B : Questions number 6 to 12 are short answer questions and carry 2 marks each.
- (iv) Section C : Questions number 13 to 24 are also short answer questions and carry 3 marks each.
- (v) Section D : Questions number 25 to 27 are long answer questions and carry 5 marks each.
- (vi) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in two questions of one mark, two questions of two marks, four questions of three marks and all the three questions of five marks weightage. You have to attempt only one of the choices in such questions.
- (vii) Use of log tables, if necessary. Use of calculators is **not** allowed.

खण्ड अ

SECTION A

1. KCl और AgCl में से कौन शॉट्की दोष दर्शाता है और क्यों ? 1

अथवा

गरम करने पर ZnO पीला क्यों प्रतीत होता है ? 1


Out of KCl and AgCl, which one shows Schottky defect and why ?

OR


Why does ZnO appear yellow on heating ?



2. निम्नलिखित को क्षारीय लक्षण के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए : 1



Arrange the following in decreasing order of basic character :



3. किस प्रकार का कोलॉइड बनता है जब किसी ठोस को द्रव में परिक्षिप्त किया जाता है ? एक उदाहरण दीजिए । 1

What type of colloid is formed when a solid is dispersed in a liquid ? Give an example.

4. क्लोरोबेन्जीन और साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में से कौन नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है और क्यों ? 1

Out of Chlorobenzene and Cyclohexyl chloride, which one is more reactive towards nucleophilic substitution reaction and why ?

5. स्टार्च और सेलुलोस में मूलभूत संरचनात्मक अंतर क्या है ? 1

अथवा

DNA के जल-अपघटन से प्राप्त उत्पाद लिखिए । 1

What is the basic structural difference between starch and cellulose ?

OR

Write the products obtained after hydrolysis of DNA.

खण्ड ब

SECTION B

6. निम्नलिखित प्रक्रमों के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए : 2

(a) बुझे चूने से Cl_2 प्रवाहित की जाती है ।

(b) $\text{Fe}(\text{III})$ लवण के जलीय विलयन से SO_2 गैस प्रवाहित की जाती है ।

अथवा

(a) क्लोरीन गैस से बनाई गई दो विषेली गैसों के नाम लिखिए ।

(b) अमोनिया से अभिक्रिया करने पर Cu^{2+} विलयन नीला रंग क्यों देता है ? 2

Write balanced chemical equations for the following processes :

(a) Cl_2 is passed through slaked lime.

(b) SO_2 gas is passed through an aqueous solution of $\text{Fe}(\text{III})$ salt.

OR

(a) Write two poisonous gases prepared from chlorine gas.

(b) Why does Cu^{2+} solution give blue colour on reaction with ammonia ?



7. कारण दीजिए :

2



- (a) खाना बनाने के बर्तन की अपेक्षा प्रेशर कुकर में खाना अधिक शीघ्रता से पक जाता है।
- (b) लाल रुधिर कोशिकाएँ (RBC) लवणीय जल में रखे जाने पर संकुचित हो जाती हैं परन्तु आसुत जल में फूल जाती हैं।

Give reasons :

- (a) Cooking is faster in pressure cooker than in cooking pan.
- (b) Red Blood Cells (RBC) shrink when placed in saline water but swell in distilled water.



8. अभिक्रिया की कोटि परिभाषित कीजिए। दिए गए आलेखों में अभिक्रिया की कोटि की प्रागुक्ति कीजिए :

2



जहाँ $[R]_0$ अभिकर्मक की प्रारम्भिक सान्द्रता है और $t_{1/2}$ अर्ध आयु है।

Define order of reaction. Predict the order of reaction in the given graphs :



where $[R]_0$ is the initial concentration of reactant and $t_{1/2}$ is half-life.



9. जब FeCr_2O_4 को वायु की उपस्थिति में Na_2CO_3 के साथ संगलित किया जाता है तो यौगिक (A) का पीला विलयन प्राप्त होता है। यौगिक (A) अम्लीकरण किए जाने पर यौगिक (B) देता है। यौगिक (B) KCl के साथ अभिक्रिया करके एक नारंगी रंग का यौगिक (C) बनाता है। यौगिक (C) का अम्लीय विलयन Na_2SO_3 को (D) में ऑक्सीकृत कर देता है। (A), (B), (C) और (D) की पहचान कीजिए।

2

When FeCr_2O_4 is fused with Na_2CO_3 in the presence of air it gives a yellow solution of compound (A). Compound (A) on acidification gives compound (B). Compound (B) on reaction with KCl forms an orange coloured compound (C). An acidified solution of compound (C) oxidises Na_2SO_3 to (D). Identify (A), (B), (C) and (D).

10. संकुल $[\text{Co}(\text{en})_2(\text{NO}_2)\text{Cl}]^+$ का IUPAC नाम लिखिए। इस संकुल द्वारा किस प्रकार की संरचनात्मक समावयवता दर्शाई जाती है?

2

अथवा

IUPAC मानदण्डों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संकुलों के सूत्र लिखिए :

2

- (a) हेक्साएक्वाक्रोमियम(III) क्लोराइड
- (b) सोडियम ट्राइऑक्सैलेटोफेरेट(III)

Write IUPAC name of the complex $[\text{Co}(\text{en})_2(\text{NO}_2)\text{Cl}]^+$. What type of structural isomerism is shown by this complex?

OR

Using IUPAC norms, write the formulae for the following complexes :

- (a) Hexaaquachromium(III) chloride
- (b) Sodium trioxalatoferrate(III)

11. (a) यद्यपि $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ और $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ दोनों में sp^3 संकरण होता है फिर भी $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ अनुचुम्बकीय है और $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ प्रतिचुम्बकीय है। कारण दीजिए। (Ni का परमाणु क्रमांक = 28)

- (b) क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धान्त के आधार पर d^5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए जबकि
- (i) $\Delta_o < P$ और
 - (ii) $\Delta_o > P$


2

- (a) Although both $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ and $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ have sp^3 hybridisation yet $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ is paramagnetic and $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ is diamagnetic. Give reason. (Atomic no. of Ni = 28)




- (b) Write the electronic configuration of d⁵ on the basis of crystal field theory when
 (i) $\Delta_0 < P$ and
 (ii) $\Delta_0 > P$

12. निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में मुख्य यौगिकों A और B की संरचनाएँ लिखिए : 2



Write structures of main compounds A and B in each of the following reactions :



खण्ड स

SECTION C


13. अभिक्रिया $A + 2B \longrightarrow C$ के लिए निम्नलिखित आँकड़े प्राप्त हुए : 3

प्रयोग	[A]/M	[B]/M	C के विरचन का प्रारम्भिक वेग $/M \text{ min}^{-1}$
1	0·2	0·3	$4·2 \times 10^{-2}$
2	0·1	0·1	$6·0 \times 10^{-3}$
3	0·4	0·3	$1·68 \times 10^{-1}$
4	0·1	0·4	$2·40 \times 10^{-2}$

- (a) A और B के प्रति अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए।
 (b) वेग नियम और अभिक्रिया की कुल कोटि लिखिए।
 (c) वेग स्थिरांक (k) परिकलित कीजिए।




The following data were obtained for the reaction :



Experiment	[A]/M	[B]/M	Initial rate of formation of C /M min ⁻¹
1	0·2	0·3	$4\cdot2 \times 10^{-2}$
2	0·1	0·1	$6\cdot0 \times 10^{-3}$
3	0·4	0·3	$1\cdot68 \times 10^{-1}$
4	0·1	0·4	$2\cdot40 \times 10^{-2}$


- (a) Find the order of reaction with respect to A and B.
- (b) Write the rate law and overall order of reaction.
- (c) Calculate the rate constant (k).
14. (a) धूल की परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम लिखिए।
- (b) भौतिक अवशोषण उत्क्रमणीय जबकि रसोशोषण अनुत्क्रमणीय क्यों है ?
- (c) चित्र में दी गई विधि द्वारा एक कोलॉइडी सॉल बनाया गया। परखनली में बने AgI कोलॉइडी कणों के ऊपर क्या आवेश है ? यह सॉल कैसे निरूपित किया जाता है ? 3



- (a) Write the dispersed phase and dispersion medium of dust.
- (b) Why is physisorption reversible whereas chemisorption is irreversible ?



- (c) A colloidal sol is prepared by the method given in the figure. What is the charge on AgI colloidal particles formed in the test tube ? How is this sol represented ?



15. परमाणु द्रव्यमान 81 u के किसी तत्व X का घनत्व $10\cdot2\text{ g cm}^{-3}$ है। यदि एकक कोष्ठिका का आयतन $2\cdot7 \times 10^{-23}\text{ cm}^3$ है, तो घनीय एकक कोष्ठिका के प्रकार की पहचान कीजिए। (दिया गया है : $N_A = 6\cdot022 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$) 3

An element X with an atomic mass of 81 u has density $10\cdot2\text{ g cm}^{-3}$. If the volume of unit cell is $2\cdot7 \times 10^{-23}\text{ cm}^3$, identify the type of cubic unit cell. (Given : $N_A = 6\cdot022 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$)

16. $1\cdot9\text{ g}$ प्रति 100 mL KCl ($M = 74\cdot5\text{ g mol}^{-1}$) का विलयन 3 g प्रति 100 mL यूरिया ($M = 60\text{ g mol}^{-1}$) के साथ समपरासरी है। KCl विलयन की वियोजन की मात्रा परिकलित कीजिए। मान लीजिए कि दोनों विलयन समान ताप पर हैं। 3

A solution containing $1\cdot9\text{ g}$ per 100 mL of KCl ($M = 74\cdot5\text{ g mol}^{-1}$) is isotonic with a solution containing 3 g per 100 mL of urea ($M = 60\text{ g mol}^{-1}$). Calculate the degree of dissociation of KCl solution. Assume that both the solutions have same temperature.

17. (a) ज़िंक, (b) जर्मेनियम, (c) टाइटेनियम के लिए प्रयुक्त परिष्करण विधि का नाम और सिद्धान्त लिखिए। 3

Write the name and principle of the method used for refining of (a) Zinc, (b) Germanium, (c) Titanium.



18. निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए :

3

- (a) संकरण धातुएँ संकुल यौगिक बनाती हैं।
- (b) (Zn^{2+}/Zn) और (Mn^{2+}/Mn) के लिए E° के मान अपेक्षित मानों से अधिक ऋणात्मक होते हैं।
- (c) ऐक्टिनॉयड ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अधिक परास दर्शाते हैं।

Give reasons for the following :

- (a) Transition metals form complex compounds.
- (b) E° values for (Zn^{2+}/Zn) and (Mn^{2+}/Mn) are more negative than expected.
- (c) Actinoids show wide range of oxidation states.

19. निम्नलिखित बहुलकों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एकलकों की संरचनाएँ लिखिए :

3

- (a) नाइलॉन-6
- (b) टेरीलीन
- (c) ब्यूना-N

अथवा

- (a) क्या $\{CH_2 - CH(C_6H_5)\}_n$ एक समबहुलक अथवा सहबहुलक है ? कारण दीजिए।
 - (b) निम्नलिखित बहुलक के एकलक लिखिए :
- $$\begin{array}{ccccccc} \{ & O - & CH & - & CH_2 & - & C & - O - & CH & - & CH_2 & - & C & \} \\ & | & & & || & & | & & | & & & & || \\ & CH_3 & & & O & & C_2H_5 & & O & & & & O \end{array} _n$$
- (c) एथीन के बहुलकन में बेन्ज़ोयल पराऊक्साइड की भूमिका लिखिए।

3

Write the structures of monomers used for getting the following polymers :

- (a) Nylon-6
- (b) Terylene
- (c) Buna-N

OR

- (a) Is $\{CH_2 - CH(C_6H_5)\}_n$ a homopolymer or copolymer ? Give reason.
 - (b) Write the monomers of the following polymer :
- $$\begin{array}{ccccccc} \{ & O - & CH & - & CH_2 & - & C & - O - & CH & - & CH_2 & - & C & \} \\ & | & & & || & & | & & | & & & & || \\ & CH_3 & & & O & & C_2H_5 & & O & & & & O \end{array} _n$$
- (c) Write the role of benzoyl peroxide in polymerisation of ethene.



20. (a) निम्नलिखित में से उनके चिकित्सीय गुणों के आधार पर एक विषम को छाँटिए :
इकवैनिल, सेकोनल, बाइथायोनल, ल्यूमिनल
- (b) बर्टन धोने के उपयोग में आने वाले द्रव अपमार्जक किस प्रकार के अपमार्जक होते हैं ?
- (c) ऐस्पार्टेम का उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों तक ही सीमित क्यों है ? 3

अथवा

प्रत्येक के लिए उचित उदाहरण सहित निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए : 3

- (a) प्रतिजैविक (एन्टिबायोटिक)
- (b) पूतिरोधी (एन्टिसेप्टिक)
- (c) ऋणायनी अपमार्जक
- (a) Pick out the odd one from the following on the basis of their medicinal properties :
- Equanil, Seconal, Bithional, Luminal
- (b) What type of detergents are used in dishwashing liquids ?
- (c) Why is the use of aspartame limited to cold foods ?

OR

Define the following terms with a suitable example of each :

- (a) Antibiotics
- (b) Antiseptics
- (c) Anionic detergents

21. अणुसूत्र C_4H_9Br के सभी समावयवों में से, पहचानिए 3
- (a) एक समावयव जो ध्रुवण धूर्णक है ।
- (b) एक समावयव जो S_N2 के प्रति अत्यधिक अभिक्रियाशील है ।
- (c) ऐसे दो समावयव जो ऐल्कोहॉली पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड द्वारा विहाइड्रोजनन के फलस्वरूप एक जैसा उत्पाद देते हैं ।




Among all the isomers of molecular formula C_4H_9Br , identify

- (a) the one isomer which is optically active.
- (b) the one isomer which is highly reactive towards S_N2 .
- (c) the two isomers which give same product on dehydrohalogenation with alcoholic KOH.



22. निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए :

3






अथवा

आप निम्नलिखित रूपांतरण कैसे करेंगे :

3

- (a) N-फेनिलएथेनेमाइड से p-ब्रोमोऐनिलीन
- (b) बेन्जीन डाइएज़ोनियम क्लोरोराइड से नाइट्रोबेन्जीन
- (c) बेन्ज़ोइक अम्ल से ऐनिलीन

Complete the following reactions :



OR

How do you convert the following :

- (a) N-phenylethanamide to p-bromoaniline
- (b) Benzene diazonium chloride to nitrobenzene
- (c) Benzoic acid to aniline



23. (a) कारण दीजिए :
(i) ऐसीटिक अम्ल की अपेक्षा बेन्जोइक अम्ल प्रबलतर अम्ल होता है।
(ii) एथेनेल की अपेक्षा मैथैनेल नाभिकस्नेही योगज अभिक्रियाओं के प्रति अधिक अभिक्रियाशील होता है।
- (b) प्रोपेनैल और प्रोपेनोन के बीच विभेद करने के लिए एक सरल रासायनिक परीक्षण दीजिए। 3
- (a) Give reasons :
(i) Benzoic acid is a stronger acid than acetic acid.
(ii) Methanal is more reactive towards nucleophilic addition reaction than ethanal.
- (b) Give a simple chemical test to distinguish between propanal and propanone.
24. (a) माल्टोस के जल-अपघटन के उत्पाद क्या हैं ?
(b) प्रोटीन की α -हेलिक्स संरचना को किस प्रकार का आबन्धन स्थायित्व प्रदान करता है ?
(c) उस विटामिन का नाम लिखिए जिसकी कमी से प्रणाशी रक्ताल्पता हो जाती है। 3
अथवा
- निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए : 3
- (a) प्रतीप शर्करा
(b) प्राकृत प्रोटीन
(c) न्यूक्लिओटाइड
- (a) What are the products of hydrolysis of maltose ?
(b) What type of bonding provides stability to α -helix structure of protein ?
(c) Name the vitamin whose deficiency causes pernicious anaemia.

OR

Define the following terms :

- (a) Invert sugar
(b) Native protein
(c) Nucleotide



ਖਣਡ ਦ

SECTION D

- 25.** (a) $0\cdot001 \text{ mol L}^{-1}$ ਐਸੀਟਿਕ ਅਮਲ ਕੀ ਚਾਲਕਤਾ $4\cdot95 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1}$ ਹੈ। ਯਦਿ ਐਸੀਟਿਕ ਅਮਲ ਕੇ ਲਿਏ Λ_m^0 ਕਾ ਮਾਨ $390\cdot5 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਕੇ ਵਿਧੋਜਨ ਸਥਿਰਾਂਕ ਕਾ ਪਰਿਕਲਨ ਕੀਜਿਏ।

- (b) ਅਭਿਕਿਤਾ




ਕੇ ਲਿਏ 25°C ਪਰ ਨੇਨਸਟ ਸਮੀਕਰਣ ਲਿਖਿਏ।

- (c) ਸੰਚਾਯਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਿਥਾ ਹਨ? ਏਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀਜਿਏ।

5

ਅਥਰਵਾ

- (a) ਤਾਂ ਸੇਲ ਕੋ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕੀਜਿਏ ਜਿਸਮੇਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਅਭਿਕਿਤਾ ਹੋਤੀ ਹੈ :



ਇਸਕਾ ਵਿ.ਵਾ.ਬਲ (emf) ਪਰਿਕਲਿਤ ਕੀਜਿਏ ਯਦਿ $E_{\text{ਸੇਲ}}^0 = 1\cdot41 \text{ V}$ ਹੈ।

- (b) ਪ੍ਰਬਲ ਔਰ ਦੁਰਬਲ ਵਿਦ੍ਯੁਤ-ਅਪਗਠਣ ਕੇ ਲਿਏ ਸਾਨਕਤਾ ਬਢਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਮੋਲਰ ਚਾਲਕਤਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਿਵਰਿਤ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਆਪ ਦੁਰਬਲ ਵਿਦ੍ਯੁਤ-ਅਪਗਠਣ ਕੇ ਲਿਏ ਸੀਮਾਂ ਮੋਲਰ ਚਾਲਕਤਾ (Λ_m^0) ਕੈਂਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋਣੇ?

5

- (a) The conductivity of $0\cdot001 \text{ mol L}^{-1}$ acetic acid is $4\cdot95 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1}$. Calculate the dissociation constant if Λ_m^0 for acetic acid is $390\cdot5 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$.


- (b) Write Nernst equation for the reaction at 25°C :



- (c) What are secondary batteries? Give an example.

OR

- (a) Represent the cell in which the following reaction takes place :



Calculate its emf if $E_{\text{cell}}^0 = 1\cdot41 \text{ V}$.

- (b) How does molar conductivity vary with increase in concentration for strong electrolyte and weak electrolyte? How can you obtain limiting molar conductivity (Λ_m^0) for weak electrolyte?



- 26.** (a) निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए :
- फ़ीनॉल की सान्द्र HNO_3 के साथ अभिक्रिया की जाती है।
 - प्रोपीन की B_2H_6 से अभिक्रिया करके $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$ से अभिक्रिया की जाती है।
 - सोडियम तृतीयक-ब्यूटॉक्साइड की CH_3Cl के साथ अभिक्रिया की जाती है।
- (b) ब्यूटेन-1-ऑल और ब्यूटेन-2-ऑल के बीच आप कैसे विभेद करेंगे ?
- (c) निम्नलिखित को अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए :
- फ़ीनॉल, एथेनॉल, जल

5

अथवा

- (a) (i) क्यूमीन, (ii) बेन्जीन सल्फोनिक अम्ल, (iii) बेन्जीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से आप फ़ीनॉल कैसे प्राप्त कर सकते हैं ?
- (b) 3-मेथिलफ़ीनॉल के द्विनाइट्रोकरण से प्राप्त मुख्य उत्पाद की संरचना लिखिए।
- (c) कोल्बे अभिक्रिया से सम्बद्ध अभिक्रिया लिखिए।
- (a) Give equations of the following reactions :
- Phenol is treated with conc. HNO_3 .
 - Propene is treated with B_2H_6 followed by $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$.
 - Sodium t-butoxide is treated with CH_3Cl .
- (b) How will you distinguish between butan-1-ol and butan-2-ol ?
- (c) Arrange the following in increasing order of acidity :

Phenol, ethanol, water

OR

- (a) How can you obtain Phenol from (i) Cumene, (ii) Benzene sulphonic acid, (iii) Benzene diazonium chloride ?
- (b) Write the structure of the major product obtained from dinitration of 3-methylphenol.
- (c) Write the reaction involved in Kolbe's reaction.

- 27.** (a) निम्नलिखित के कारण दीजिए :
- वर्ग 15 में N से Bi तक -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शने की प्रवृत्ति घटती है।
 - H_2O से H_2Te तक अम्लीय लक्षण बढ़ता है।
 - ClF_3 की अपेक्षा F_2 अधिक अभिक्रियाशील है, जबकि Cl_2 की अपेक्षा ClF_3 अधिक अभिक्रियाशील है।



- (b) (i) XeF_2 , (ii) $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$ की संरचना खींचिए।

5

अथवा

- (a) फ्लुओरीन की असामान्य अभिक्रिया दर्शाने के लिए एक उदाहरण दीजिए।
(b) श्वेत फँस्फोरस और लाल फँस्फोरस के बीच एक संरचनात्मक अन्तर क्या है?
(c) क्या होता है जब XeF_6 , NaF से अभिक्रिया करता है?
(d) H_2O की अपेक्षा H_2S एक बेहतर अपचायक क्यों है?
(e) निम्नलिखित अम्लों को उनके अम्लीय लक्षण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए :

HF, HCl, HBr और HI

5

- (a) Account for the following :

- (i) Tendency to show -3 oxidation state decreases from N to Bi in group 15.
(ii) Acidic character increases from H_2O to H_2Te .
(iii) F_2 is more reactive than ClF_3 , whereas ClF_3 is more reactive than Cl_2 .

- (b) Draw the structure of (i) XeF_2 , (ii) $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$.

OR

- (a) Give one example to show the anomalous reaction of fluorine.
(b) What is the structural difference between white phosphorus and red phosphorus?
(c) What happens when XeF_6 reacts with NaF ?
(d) Why is H_2S a better reducing agent than H_2O ?
(e) Arrange the following acids in the increasing order of their acidic character :

HF, HCl, HBr and HI